

OL/SE/231/SEP 2020-21

September 8, 2020

The Secretary BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Limited Dalal Street , Mumbai 400 001	The Secretary National Stock Exchange Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai 400 051
Security code: 532880	Symbol: OMAXE
Fax No 022-22723121/2037/39/41/61	Fax No 022-2659 8237/38

Subject: Newspaper Advertisement of Notice of Board Meeting & Transfer of Equity Shares to IEPF


Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement in respect of Intimation of the Board Meeting scheduled to be held on September 14, 2020 and Transfer of Equity Shares to IEPF published in "Business Standard, New Delhi (Hindi & English Editions)."

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website i.e. www.omaxe.com.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You.

For Omaxe Limited
For OMAXE LIMITED
Company Secretary**Navin Jain**
Company Secretary

Encl: a/a

"This is to inform that please make all correspondence with us on our **Corporate Office** Address only"

OMAXE LIMITED

Corporate Office: 7, Local Shopping Centre, Kalkaji, New Delhi-110019.
Tel.: +91-11-41896680-85, 41893100, **Fax:** +91-11-41896653, 41896655, 41896799

Regd. Office: Shop No. 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon - 122 001, (Haryana)
Toll Free No. 18001020064, **Website:** www.omaxe.com, **CIN:** L74899HR1989PLC051918



ICICI Bank
ICICI BANK LIMITED
 CIN: L65190G1994PLC021012
 Regd. Office: ICICI Bank Limited, ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Poona Road, Vadodara, Gujarat - 390 007
 Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

CORRIGENDUM

All are hereby informed that PUBLIC NOTICE - INVITING EXPRESSION OF INTEREST FOR SALE published on 07/09/2020 in this paper. In that PUBLIC NOTICE - INVITING EXPRESSION OF INTEREST FOR SALE OF SOMA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED shall be read as PUBLIC NOTICE - INVITING EXPRESSION OF INTEREST FOR SALE OF LOAN OF RATNAGIRI GAS AND POWER PRIVATE LIMITED
 All the other contents of the notice will remain the same.
 Sd/- Authorized Signatory

JAUSS POLYMERS LIMITED
 CIN: L74899HR1987PLC066065
 Registered Office: Plot No. - 51, Roza Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana)
 Website: www.jausspolymers.com, Email: response@jausspolymers.com, Tele. No.: 0120-7195236-239.

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 803-805, 6th Floor, Tower-2, Assotech Business Crestora, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Tuesday, the 15th day of September, 2020 inter-alia, to consider and approve the following:

- To consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2020;
- To consider and take on record the Limited Review Report on Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2020; and
- To consider and approve any other agenda item as place on Board.

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from July 1, 2020 till 48 hour after the declaration of un-audited Financial Results i.e. September 17, 2020. Accordingly, the Trading Window shall reopen on September 18, 2020.

For Jauss Polymers Limited
 Sd/-
 Place: Noida Makesh Kumar
 Date: 07.09.2020 Company Secretary

Innovative Tech Pack Limited
 CIN: L74899HR1988PLC032412
 Registered Office: Plot No. - 51, Roza Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana)

OMAXE
OMAXE LIMITED
 (CIN: L74899HR1989PLC051918)
 Regd. Office: Shop No.19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram-122001, Haryana
 Corp. Office: Omaxe House, 7, LSC, Kalkaji, New Delhi-110019
 Tel: +91-11-41896680-85
 Fax: +91-11-41896799
 Website: www.omaxe.com
 Email: secretarial_1@omaxe.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 14th day of September, 2020 at New Delhi, to consider and approve, inter-alia, the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter ended on June 30, 2020 at the recommendation of the Audit Committee which will consider and review the same at its meeting scheduled to be held on the same day.

Further, in accordance with the applicable Regulations of SEBI (PIT) Regulations, 2015, the "Trading Window" for dealing in Equity Shares of the Company was closed from April 1, 2020 till 48 hours after the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results, for quarter ended on June 30, 2020, are submitted to the Stock Exchanges pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with BSE & NSE clarification vide Circular no. LIST/COMP/01/2019-20 and NSE/CML/2019/11 respectively and in accordance with Company's Code of Conduct. The same was also intimated to all the Designated Person(s) of the Company.

Hence, in view of above, the trading window shall remain closed till the end of business hours on Wednesday, 16th Day of September, 2020.

This notice is also available on Company's website i.e. www.omaxe.com and on websites of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com, where the Equity Shares of the Company are Listed.

For OMAXE LTD.
 Sd/-
 New Delhi (Rohas Goel)
 7.09.2020 Chairman & Managing Director

PUBLIC NOTICE/TENDER NOTICE

SR NO	NAME OF DEPARTMENT / BOARD / CORP AUTH	NAME OF WORK / TENDER	OPENING DATE / CLOSING DATE (TIME)	AMOUNT / END APPROX / IN Rupees	WEBSITE OF THE DEPARTMENT	MODAL OFFICER / CONTACT DETAILS / EMAIL	TENDER REFNO / TENDER NO.
1	CE /HPPC / URBAN, Bija Vihar Nigam Limited	Purchase of 500 MW Solar Renewable power during 01.10.2020 to 30.09.2021 through DEEP Portal of PEPCL.	Start Time: 09-09-2020 at 17:30 Hrs Last Time: 21-09-2020 at 17:30 Hrs	Rt. 30000/- per MW per month of quantum offered	http://www.urbn.org.in, www.municipalcommissions.coopcc@gmail.com	3318252044 urbn.org.in	NIT No. 67A9PPC

Ref no - 42/04-05-2020 HO No-113/01/2020/26268 Chief Engineer, HPPC, Panthnagar

almondz
 the financial partnership
ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LTD.
 CIN: L74899DL1994PLC059829
 Regd. Off.: 2nd Floor, 3 Scindia House, Janpath, New Delhi - 110001
 Tel.: 011-41514666, Fax: 011-41514665
 Website: www.almondzglobal.com, E-mail ID: secretarial@almondz.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, the 14th day of September, 2020, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone as well as Consolidated) for the Quarter ended 30th June, 2020.

The said Notice is also available at Company's website at www.almondzglobal.com

For Almondz Global Securities Ltd.
 Sd/-
 Place: New Delhi Ajay Pratap
 Date: 07.09.2020 Company Secretary & Vice- President Corporate Affairs

OM METALS INFRAPROJECTS LTD
 CIN: L27203RJ1971PLC003414
 Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower, Church Road, M.I. Road, Jaipur-1
 Tel:+91-141-5180000 Website: www.ommetals.com E-Mail Id: jaipur@ommetals.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of M/s Om Metals Infraprojects Limited will be held on **Monday, 14th September, 2020** inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) along with limited review report of the Company for the quarter ended June 30, 2020.

This intimation is also available on Company's Website at www.ommetals.com and on Stock Exchanges Website at www.bseindia.com and www.nseindia.com

By the order of the Board
 For and on behalf of Om Metals Infraprojects Limited
 Sd/-
 Reena Jain
 Place: Jaipur
 Date: 7th September, 2020
 Company Secretary

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

"CORRIGENDUM"

The on-line tenders for the work invited vide this office N.I.T. No. PWD/BWD/T.A/NIT/2019-20/7683-7742 dated 27/07/2020 published vide R.O. No. 2428/2020-2021 (Classified) dated 24/08/2020 in Weekly Giriraj Shimla are hereby postponed due to administrative reasons. Now the starting date for downloading of bids 08/10/2020 instead of 03/09/2020 and deadline for submission of bids is 23/10/2020 instead of 17/09/2020. All other Terms & conditions shall be remained unchanged. The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptenders.gov.in.

CHL LIMITED
 CIN No: L55101DL1979PLC009498
 Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025
 Tel.: 91-11-26835070, 47808080 Fax: 26836288
 E-mail: chl@chl.co.in Website: www.chl.co.in

NOTICE OF THE 41st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

41st ANNUAL GENERAL MEETING:
 NOTICE is hereby given that:

1. The 41st AGM will be held on **Tuesday, 29th September, 2020 at 04:30 P.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April and 5th May 2020, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of the Listing Regulation, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) and in terms of MCA Circular/s and SEBI Circular, the Notice of the 41st AGM and Annual Report 2019-20 including the Audited Financial Statement for the year ended 31st March, 2020 ("Annual Report 2019-20") has been sent on 07th September, 2020 by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of 41st AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. Members are hereby informed that the said Annual Report including 41st AGM Notice is also available on the Company's website at www.chl.co.in, website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com respectively. The Company will also provide a facility of e-voting to members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with CDSL for providing the remote e-voting and e-voting during the AGM.

2. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd September, 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary Business, as set out in the Notice of 41st AGM electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the Members are informed that:

- the Ordinary Business, as set out in the Notice of 41st AGM, will be transacted through voting by electronic means;
- the remote e-Voting shall commence on Friday, 25th September 2020 at 10:00 A.M. IST;
- the remote e-Voting shall end on Monday, 28th September 2020 at 05:00 P.M. IST. The remote e-voting shall be disabled for voting by CDSL after 05:00 p.m. IST on 28th September 2020.
- the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 41st AGM, is 22nd September, 2020;
- any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of 41st AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- in case of any queries or issues regarding attending AGM / e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section.
- those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with Company, may register their email address by sending scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with Company, by email to Company email id: chl@chl.co.in. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

3. Pursuant to section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share

OM METALS INFRAPROJECTS LTD
 CIN: L27203RJ1971PLC003414
 Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower, Church Road, M.I. Road, Jaipur-1
 Tel:+91-141-5160000 Website: www.ommetals.com E-Mail Id: jaipur@ommetals.com

Notice of the 48th Annual General Meeting (AGM) and e-Voting Information

a) 48th Annual General Meeting (AGM) of Members of Om Metals Infraprojects Limited will be held on **Tuesday, the 29th September 2020 at 12:30 p.m. IST** through "Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, read with MCA Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020.

b) The Notice and Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2020 and other documents required to be attached thereto have been sent on 7th September, 2020 only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository in accordance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated May 05, 2020 read with circular dated April 08, 2020, April 13, 2020 (collectively referred as "MCA Circulars") and SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued in view of continuing Covid-19 pandemic.

Members who have not registered their E-Mail address are requested to register the same in respect of the shares held in electronic form with the depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to M/s Skyline Financial Services Private Limited, Registrar and Transfer Agents of the Company at admin@skylinerta.com along with a copy to the Company at cs@ommetals.com.

c) The Annual Report along with Notice of AGM is also available on the Company's website www.ommetals.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

d) The shareholders who wish to attend the AGM through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") are requested to go through the procedure laid down in the Notice of 48th AGM. Transaction of all business of the AGM through remote e-Voting is arranged to the Members through National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-Voting will be available from Friday, September 25, 2020 at 9:00 AM and ends on Monday, September 28, 2020 at 5:00 PM. This facility will not be available thereafter. The procedure for remote e-voting along with the manner in which the members holding shares in physical form or who have not registered their E-Mail ID can cast their vote through E-Voting is provided in the notice of 48th AGM.

e) The members who have not cast their votes by remote e-Voting can exercise e-voting during the AGM. The procedure for e-voting during the AGM is the same as that of the instructions mentioned for remote e-voting.

f) The cut-off date for reckoning the eligibility of members for voting is Tuesday, 22nd September, 2020. Any person holding shares in the Company at the close of business hours on the cut-off date alone is eligible for voting through remote e-voting or e-voting on the day of the AGM.

g) Any person who has acquired shares after the dispatch of the notice may obtain the User ID and password by sending an email request to <https://www.evoting.nsdl.com> or info@skylinerta.com.

h) Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd September 2020 to Tuesday, 29th September 2020 (both days inclusive).

i) Dividend when approved will be paid to such of the members, whose names appear in the Register of the Members of the Company as on Tuesday, 22nd September, 2020. In respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per the details furnished by the Depositories for this purpose at the end of business hours on Tuesday, 22nd September, 2020.

j) Members who holds shares in dematerialized form and want to provide/change/correct their bank account details should send the same immediately to the concerned Depository Participant and not to the Company. Members are also requested to give the MICR Code of their Bank to the Depository Participant. While making payment of Dividend, the RTA is obliged to use only the data provided by the depositories. In case of such dematerialized shares.

Members who are holding shares in Physical form are advised to submit particulars of their Bank Account viz. name and address of the branch of the Bank, MICR Code of the branch, type of Account and Account Number to RTA at admin@skylinerta.com along with a copy to the Company at cs@ommetals.com.

k) For any queries/ clarifications please contact : NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-890 or contact Mr. Arpit Vishal, Senior Manager - NSDL at arv@nsdl.co.in / 022-24994360 / +91 9920254780 or Mr. Sagar Ghosalkar, Assistant Manager- NSDL at sagar.ghosalkar@nsdl.co.in / 022-24994553 / +91 9326781467

For Om Metals Infraprojects Limited
 Dharam Prakash Kothari
 Chairman
 Date: September 07, 2020
 Place: New Delhi DIN: 00035298

41st ANNUAL GENERAL MEETING:
NOTICE is hereby given that:

1. The 41st AGM will be held on **Tuesday, 29th September, 2020 at 04:30 P.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April and 5th May 2020, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.
- Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of the Listing Regulation, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) and in terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 41st AGM and Annual Report 2019-20 including the Audited Financial Statement for the year ended 31st March, 2020 ("Annual Report 2019-20") has been sent on 07th September, 2020 by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of 41st AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular. Members are hereby informed that the said Annual Report including 41st AGM Notice is also available on the Company's website at www.chl.co.in, website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com respectively. The Company will also provide a facility of e-voting to members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with CDSL for providing the remote e-voting and e-voting during the AGM.
2. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd September, 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary Business, as set out in the Notice of 41st AGM electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the Members are informed that:
- (i) the Ordinary Business, as set out in the Notice of 41st AGM, will be transacted through voting by electronic means;
 - (ii) the remote e-Voting shall commence on Friday, 25th September 2020 at 10:00 A.M. IST;
 - (iii) the remote e-Voting shall end on Monday, 28th September 2020 at 05:00 P.M. IST. The remote e-voting shall be disabled for voting by CDSL after 05.00 p.m. IST on 28th September 2020.
 - (iv) the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 41st AGM, is 22nd September, 2020;
 - (v) any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of 41st AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at e-mail: helpdesk.evoting@cdsindia.com.
 - (vi) In case of any queries or issues regarding attending AGM / e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section.
 - (vii) those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with Company, by email to Company email id: chl@chl.co.in. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.
3. Pursuant to section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 23rd September 2020 to Tuesday, 29th September 2020 (both days inclusive).

Date : September 07, 2020
Place : New Delhi

For CHL LIMITED
Sd/-
G. J. Varadarajan
Company Secretary

- वीसी द्वारा कराने की अनुमति प्रदान की है। जत: कम्पनी की एजीएम वीसी द्वारा एजीएम की सूचना में दी जाने वाली व्यवसाय विभाजन हेतु आवेजित की जा रही है।
- परिचय के अनुपालन में, एजीएम की सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 को वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों जिन्होंने ईमेल पर कम्पनी/डिपॉजिटरीज भागीदार के पास पंजीकृत रहे मेल दी गई है। वे जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.jagsonpal.com साइट में स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल सिस्कोरीटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। ईमेल द्वारा एजीएम की सूचना को भेजने का कार्य 06 सितंबर, 2020 को पूरा कर लिया गया है।
 - कट-ऑफ तिथि i.e. 23 सितंबर, 2020 को भौतिक अथवा डिजिटरीलाइन प्रपत्र में सेयर धारिता सदस्य एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिकली एनडीएसएल की (रिमोट ई-वोटिंग) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर अपना वोट दे सकते हैं।

सदस्यों को एलद्वारा सूचित किया जाता है कि :

- एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय विभाजन रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा किया जायेगा;
 - रिमोट ई-वोटिंग रविवार 27 सितंबर, 2020 को प्रात: 09:00 बजे (आईएसटी) पर आरम्भ होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 29 सितंबर, 2020 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी;
 - एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा अपना ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट देने की यात्रा निवारित करने की कट-ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2020 होगी;
 - कोई भी व्यक्ति, जिसने एजीएम की सूचना को भेजने से पहले कम्पनी के शेयरर्स अधिग्रहण किये हो तथा सदस्य बना हो, तथा कट-ऑफ तिथि i.e. 23 सितंबर, 2020 को शेयरर्स धारिता करता हो, लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर आग्रह भेज प्राप्त कर सकता है। फिर भी, यदि एक व्यक्ति एनएसडीएल में पहले से ई-वोटिंग कि लिए पंजीकृत है तब पहले वाली गृहर आईडी का इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट देने के लिए प्रयोग कर सकता है।
 - सदस्य वोट करें कि :
 - रिमोट ई-वोटिंग मासगुल को एनएसडीएल द्वारा 29 सितंबर, 2020 को सायं 05:00 बजे आईएसटी के बाद निष्क्रिय कर दिया जायेगा तथा एक बार सदस्य द्वारा रिमोट वोट देने के बाद दूसरे सदस्य को अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों को वीसी द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी;
 - जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है, एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने के हक्कार नहीं होंगे;
 - एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के पंजीकृत अथवा डिपॉजिटरीज भागीदार द्वारा बनाई गई लागू आई-एचआई की पंजीकृत में कट-ऑफ तिथि को अंकित होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ एजीएम में ई-वोटिंग का इस्तेमाल करेगी;
 - जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं उनसे आग्रह है कि वे अपने ईमेल पते सम्बंधित डिपॉजिटरीज भागीदार के पास पंजीकृत करावें तथा भौतिक प्रपत्र में शेयर धारिता सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने ईमेल पते कम्पनी के आरटीए एमसीएस रॉजर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को पते admin@mcsmregistrars.com पर वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों साथ में इंगालसर्वी एजीएम की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने तथा बैठक में वीसी द्वारा भाग लेने कि लिए पंजीकृत करें।
 - रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
 - एजीएम की सूचना में वर्णित प्रस्तावों के वोटिंग का परिणाम एजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के अंदर घोषित किया जायेगा। परिणामों की घोषणा के साथ ऑफिसरों की रिपोर्ट सुस्त कम्पनी की वेबसाइट पर अग्रज द्वारा घोषणा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जायेगा।
4. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए सदस्यों के लिए लागू घोषित करने के उद्देश्य की रिपोर्ट निर्धारित तिथि 23 सितंबर, 2020 है। लागू का भुगतान 05 अक्टूबर, 2020 या उसके बाद सदस्यों द्वारा एजीएम में अनुमोदन को बाद किया जायेगा।

कृपे जनसंपाल फर्मासिटिक्ल्स लिमिटेड
हरता/—
नंदिता सिंह
कम्पनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 08.09.2020
सदस्यता संख्या एसीएस 49520

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

In case of any queries or grievances regarding e-voting, the shareholders may refer the Help/FAQ's for Shareholders available at www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, at +912224994360 or email to pallavid@nsdl.co.in or contact at +91-22-24994545 or email to evoting@nsdl.co.in.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, the 23rd September, 2020 to Tuesday, the 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For FORTO PUMPS LTD.
Sd/-
Ashwani K. Verma
Company Secretary

Place: Noida
Date: 07.09.2020

खबरें जो बढ़ाए आपकी तस्करी की स्पीड

संपन्नता का कोणी और अधिक लाभ के लिए हम आपको प्रत्येक की तस्करी में बहादुरी प्रदान करेंगे।

55

सकृपा हमें अपने तस्करी के लिए अधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें सूचित करें। हमारे पास है कि वे अपने ईमेल पते सम्बंधित डिपॉजिटरीज भागीदार के पास पंजीकृत करावें तथा भौतिक प्रपत्र में शेयर धारिता सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने ईमेल पते कम्पनी के आरटीए एमसीएस रॉजर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को पते admin@mcsmregistrars.com पर वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों साथ में इंगालसर्वी एजीएम की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने तथा बैठक में वीसी द्वारा भाग लेने कि लिए पंजीकृत करें।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार शिकायत/पुछताछ के लिए सदस्य कृपया "लागातार प्रश्न पूछने" (एफएक्यूजेन) अथवा रिमोट ई-वोटिंग सेक्टरों के लिए उपलब्ध गुजर नियमावली www.evoting.nsdl.com के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुधी पत्तली गहात्रे, प्रबन्धक, एनएसडीएल शोभी मंडिर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कम्ला गिल्स कम्पाऊड, सेनायति बापट मार्ग, लोअर परत, मुम्बई - 400013, में evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं: 1800 222 990/ Telephone No.: 022-24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

For Jauss Polymers Limited
Sd/-
Mukesh Kumar
Company Secretary

ओमेक्स लिमिटेड
(सूचीकरण: L74899HR1989PLC051918)
(सूचीकृत कार्यालय) नुबन नं. 10-बी, प्रथम तल, जोधपुर रोड, नई दिल्ली-110019
फोन: +91-11-41896000-05
फैक्स: +91-11-41896799
वेबसाइट: www.omaxe.com
ईमेल: secretarial_1@omaxe.com

सूचना

एलद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकृत कार्यालय) नुबन नं. 10-बी, प्रथम तल, जोधपुर रोड, नई दिल्ली-110019 के दिनांक 29 सितंबर, 2020 के अनुसार कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक नई दिल्ली में सोमवार, 14 सितंबर, 2020 को आयोजित होने के लिए निर्धारित बैठक में लेखापरीक्षण समिति जो इन पर विचार और समीक्षा करेगी, की अनुसंधान पर अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षण वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा।

साथ ही सेबी (पीआईटी) विनियामकी, 2015 के लागू नियमों के अनुसार कंपनी के इनिशियल शेयरों में लेन-देन के लिए "ट्रेडिंग विंडो" परिचय सं. LIST/COMP/01/2019-20 और NSE/CML/2019/11 द्वारा अनुरोध की गई है और एनएसआई के स्पष्टीकरण के साथ पठित सेबी (अनाधिकृत ट्रेडिंग निषेध) विनियामकी, 2015 और कंपनी की आचार संहिता के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए एकल और समेकित अलेखापरीक्षण वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत करने के बाद 48 घंटों तक बंद रहेगी। यह कंपनी के सभी पदनामित व्यक्ति(ओं) को भी सूचित किया गया था।

इसलिए, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग विंडो नुबन, 16 सितंबर, 2020 को व्यवस्थित अथवा तक बंद रहेगी। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.omaxe.com और स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कंपनी के इनिशियल शेयर सूचीकृत हैं, की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

हित ओमेक्स लिमिटेड
हरता/—
(सुशतास शोयल)
नई दिल्ली
8.09.2020
अध्यक्ष और प्रथम निर्देशक

**HIMACHAL PARDESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer, Bhawana Division, HPPWD Bhawana on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table:-

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost (Rs)	Starting Date for downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submission of Bid
1.	Providing and laying Annual Surfacing (Periodic Maintenance) on Panchrutzi Kaswa Jugehar road in Km 5/0 to 10/0 (during the year 2020-21) on rural roads in the state of HP (SW- Providing & laying WBM Gr-II, Tack coat & 30mm thick BC in Km 5/0 to 6/0)	13,11,527/-	16/09/2020	28,300/-	30/09/2020
2.	Providing and laying Annual Surfacing (Periodic Maintenance) on Panchrutzi Kaswa Jugehar road in Km 5/0 to 10/0 (during the year 2020-21) on rural roads in the state of HP (SW- Providing & laying WBM Gr-II, Tack coat & 30mm thick BC in Km 7/0 to 9/0)	16,41,857/-	16/09/2020	32,200/-	30/09/2020
3.	Providing and laying Annual Surfacing (Periodic Maintenance) on Sulih to Rajpur road in Km 0/0 to 1/0 (during the year 2020-21) on rural roads in the state of HP (SW- Providing & laying WBM Gr-II, Tack coat & 30mm thick BC in Km 0/0 to 1/0)	8,85,117/-	16/09/2020	18,000/-	30/09/2020

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptenders.gov.in.

Executive Engineer
HPPWD Division Bhawana
Pin-176043, Tel:01894-247777
e-mail: eepwd-bhaw-hp@gov.in
on behalf of Governor of H.P.

SBI State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch
3rd Floor, Matrix Mall, Sector - 4, Jawahar Nagar, Jaipur
(Rajasthan) -302004, E-mail: sbi.18184@sbi.co.in, Branch Code-18184,
Tel.: 0141-2657926, 2657811, 2657921, 2657989

"APPENDIX-IV-A" [See proviso to rule 8(6)]

Sale Notice for Sale of Immovable Properties (Under SARFAESI Act Read with Proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the M/s. Garg Automobile Pvt. Ltd. Borrower(s) and Sh. Navin Garg S/o Sh. Satyanarayan Garg & Smt. Preeti Garg W/o Sh. Navin Garg (Guarantor(s)) that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", "As is What is", "Whatever there is" and "Without Recourse" basis on 30.09.2020 for recovery of Rs. 2,20,56,548.00 as on 30.08.2020 + Further interest, cost, charges & other expenses etc. due to the secured creditor from M/s. Garg Automobile Pvt. Ltd. Borrower(s), and Sh. Navin Garg S/o Sh. Satyanarayan Garg & Smt. Preeti Garg W/o Sh. Navin Garg (Guarantor(s)). The reserve price and the earnest money will be deposit as per details in following tables. The earnest money amount to be deposited with the Bank on or before 20.09.2020.

Description of the Immovable Property	1. Reserve Price	2. EMD Amount
1. All that part and parcel of the residential Plot situated at Plot No. 8, Behind Shiv Mandir, Shastri Nagar, Bhilwara, Distt. Bhilwara (Raj.) Standing in the name of Smt. Preeti Garg W/o Sh. Navin Garg. Total Measuring Area: - 1350 Sq. feet. Bounded: On the East by Araj No. 2532, On the West by Plot No. 7, On the North by Road, On the South by Property of Sh. Hari Shankar Dholya.	1. Rs. 29.00 Lakh	2. Rs. 2.90 Lakh

Other Encumbrance if any- Not Known

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, the Secured Creditor's website <https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others> and <https://sbi.auctiontender.net>
Date: 31.08.2020 Place: Jaipur Authorised Officer

S. E. POWER LIMITED
CIN: L40106GJ2019PLC091880
REGD. OFF: SURVEY NO. 54/B, PRATAPNAGAR, JALD-SAVLI ROAD, SAMLAHA, VARODARA-391520 (GUJ.)
TEL: +91 2667 251566 E-MAIL: cs@sepower.in, WEB: www.sepower.in

**NOTICE OF THE 10TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE & E-VOTING**

In continuation of our notice dated September 1, 2020, Notice is hereby given that:

- The 10th Annual General Meeting (AGM) of Members of S. E. Power Limited will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per relaxation provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020 read with General Circulars No. 14/2020 dt. April 8 2020, 17/2020 dt. April 13, 2020 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD3/CIR/P/2020/79 dt. May 12, 2020 without the physical presence of the Members at common venue.
- In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time read with aforesaid circulars, the Company on September 6, 2020, has completed the sending of Annual Report of the Company containing Notice of AGM along with Audited Standalone & Consolidated Financial Statements for the financial year ended March 31, 2020 and reports of the Auditors and Board, to Members whose names have appeared in Register of Members/Beneficial Owners as on August 28, 2020, through electronic mode whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of AGM and the Annual Report is also available on the Company's website www.sepower.in.
- Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (Both Days inclusive) for the purpose of AGM.
- Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, rules framed thereunder and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with aforesaid circulars, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically during remote E-Voting period and also during the AGM on all resolutions set forth in the Notice of the AGM. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide E-Voting facility and to provide VC/OAVM facility for 10th AGM.
- The remote E-Voting period shall commence on Saturday, September 26, 2020 from 9:00 A.M. (IST) and ends on Monday, September 28, 2020 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 22, 2020 may cast their vote electronically. The remote E-Voting module shall be disabled for the voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time. The manner of E-Voting for the members who have not registered their e-mail addresses has been provided in the Notice of the AGM. Any person who becomes Member of the Company after sending the email of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 22, 2020, may obtain the User Id and password by sending a request to NSDL by emailing on evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User Id and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on the Company's website. If the Member is already registered with NSDL for E-Voting then he/she can use his/her existing User Id and password for casting their vote through remote E-Voting. The Members, who have not cast their vote through remote E-Voting can exercise their voting rights during the AGM through E-Voting facility. The Members who have cast their vote by remote E-Voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The results of voting shall be declared not later than 3 days from the date of AGM and shall be placed on the Company's website i.e. www.paisalo.in and NSDL website www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries/grievances related to E-Voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote E-Voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. Members may also write to Company Secretary of the Company at the E-mail ID - cs@sepower.in.

By Order of the Board of Directors
For S. E. Power Ltd.
Saurabh Agrawal
(Company Secretary)

Date : September 6, 2020

OMAXE
Turning dreams into reality

OMAXE LIMITED
(CIN: L74899HR1999PLC051918)

Regd. Office: Shop No.19- B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram-122001, Haryana Corp. Office: Omaxe House, 7, LSC, Kalkaji, New Delhi-110019, Tel: +91-11-4189680-85, Fax: +91-11-41896799
Website: www.omaxe.com, Email: secretarial_1@omaxe.com

NOTICE

**Transfer of Equity shares of the Company
to Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

Shareholders are hereby informed that pursuant to section 124 of the Companies Act, 2013 (the Act) and the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), the dividend declared for the financial year 2012-13, which remained unclaimed for a period of seven consecutive years is required to be transferred by the Company to the demat account of the IEPF Authority. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedures set out in the Rules.

In compliance with the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually. This communication is addressed to those shareholders, whose dividend(s) remain unclaimed and whose share(s) are liable to be transferred to IEPF. The details of such shareholders along with the Folio Number/ DP ID & Client ID, shares and dividend liable to be transferred to IEPF are uploaded on the Company's website at www.omaxe.com.

The concerned shareholders are requested to encash the unclaimed dividends, if any, by making an application to the Registrars and Transfer Agent by 25th September, 2020. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders within the said date, the Company shall, with a view to comply with the requirements set out under the Act and Rules, transfer the shares to the IEPF, as per the procedure set out in the Rules by the due date.

Please note that no claims shall lie against the Company in respect of shares and unclaimed dividends transferred to the IEPF Authority and the future dividends, if any in respect of the shares transferred. The shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authorities after following the procedure prescribed in the Rules and the same is available at IEPF website i.e., www.iepf.gov.in.

To claim above unpaid dividend or in case you need any information/clarification, please write to or contact our RTA M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSG, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel No.: 011-41410592 e-mail: iepf.shares@linkintime.co.in along with required details in all your communications i.e. 1. Name of the Company; 2. Folio No. or DP and Client ID; 3. Name of shareholder; 4. Contact No.; 5. Email ID. Also provide self-attested KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof.

For OMAXE LTD.
Sd/-
(Rohtas Goel)
Chairman & Managing Director

New Delhi
07.09.2020

CHL LIMITED
Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025
Tel.: 91-11-26835070, 47808080, Fax: 26836288, E-mail: chl@chl.co.in
CIN No: L55101DL1979PLC009498

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020
(Rs. in Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		30/06/2020	30/06/2019	31/03/2020	30/06/2020	30/06/2019	31/03/2020
1	Total income from operations (net)	168.28	1,251.91	6,073.55	227.33	1,915.48	8,681.81
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items)	(378.90)	(114.68)	475.05	(1,047.37)	(799.38)	(2,563.48)
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items)	(378.90)	(114.68)	475.05	(1,047.37)	(799.38)	(2,563.48)
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	(378.90)	(114.68)	286.54	(1,047.37)	(799.38)	2,751.99
5	Total comprehensive income for the period [comprising Net Profit/(Loss) for the period & Other Comprehensive Income/ (expense)]	(378.90)	(113.23)	286.54	(1,047.37)	(797.93)	2,751.99
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37
7	Reserves excluding Revaluation Reserves			10,220.81			
8	Earning Per Share (of Rs. 2/- each) - Basic & Diluted (Not Annualised)			0.52			

NOTES:

- The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 07.09.2020. Limited Review of the above results has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of Quarter Unaudited Financial Result ended 30.06.2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Unaudited Financial Result ended 30.06.2020 are available on the websites of the BSE www.bseindia.com and on the Company's website (www.chl.co.in).

By Order of the Board
CHL LIMITED
Sd/-
(Luv Mahotra)
Managing Director
DIN 00030477

Place : New Delhi
Date : 07.09.2020

HP COTTON
TEXTILE MILLS LTD
H.P. Cotton Textile Mills Ltd.
Regd Off: 15th K.M. Stone, Delhi Road,
VPO Mayar, Hissar - 125044
Phone: +91 (0)11 41540471
Fax: +91 (0)11 49073410
CIN : L18101HR1981PLC012274
Website: www.hpthreads.com

NOTICE

Notice is hereby given that, in terms of Regulation 29 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 12th day of September, 2020 at 12:30 PM through Video Conferencing, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results

THE INDIA CEMENTS LIMITED
CIN : L26942TN1946PLC000931
Registered Office: "Dhun Building", 827, Anna Salai, Chennai 600 002.
Corporate Office : "Coromandel Towers", 93, Santhome High Road, Karpagam Avenue, R.A.Puram, Chennai 600 028.
Website: www.indiacements.co.in E-mail Id: investor@indiacements.co.in
Tel: 044 - 28572 177 / 289 / 284 / 492 Fax: 044-2851 7198

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("Rules"), the Company is required to transfer all equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund (IEPF), established by the Central government.

The list of shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF is uploaded in the Company's website : www.indiacements.co.in under the heading "Investor Corner".

In terms of the aforesaid Rules, the Company has sent individual communication to those shareholders, who have not approached IEPF to claim their dividends for 7 consecutive years since 2012-13, to their registered addresses, requesting them to claim

